



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

भूमाफिया रमन साहनी के गैंग के सहयोगी सदस्य सरोज अवस्थी

की 1,50,00000/- रू0

(एक करोड़ पचास लाख रूपये) की अवैध अर्जित सम्पत्ति जब्त

दिनांक 18.02.2021

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर शातिर अपराधी, जालसाज, भूमाफिया, गैंगेस्टर रमन साहनी गैंग के सदस्य अभियुक्त सरोज अवस्थी पुत्र गोवर्धन अवस्थी निवासी मोहल्ला आदर्शनगर थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के द्वारा जालसाजी, छल कपट, दूसरों की जमीन पर कब्जा, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन की हेराफेरी करके आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी दो ग्राम सभाओं में स्थित जमीनों, एक मकान तथा एक वैगन-आर कार को धारा 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के अन्तर्गत आज दिनांक 18.02.2021 को जब्त करने की कार्यवाही की गयी है।

सरोज अवस्थी रमन साहनी गैंग का एक सक्रिय सदस्य है जो जालसाजी, भूमाफिया एवं गैंगेस्टर का अपराधी है। संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करके दूसरों की जमीन पर कब्जा करना तथा जालसाजी करके सम्पत्ति व दूसरे की भूमि को हड़प लेना इसका पेशा है। इसके विरुद्ध कोतवाली नगर सीतापुर में गैंगेस्टर सहित लगभग डेढ़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके द्वारा पीड़ित लोग भय/आतंक आदि के कारण कई प्रकरणों में शिकायत भी नहीं करते हैं। इस शातिर अपराधी के कृत्यों पर रोक लगाने के लिए राजस्व/पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आपराधिक कृत्यों से प्राप्त की गयी दो ग्राम सभाओं में स्थित जमीनों, एक मकान व वैगन-आर कार जिसकी बाजार वैल्यू लगभग 1,50,00000/- रू0 (एक करोड़ पचास लाख) आंकी गयी है, को जब्त किया गया है। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और

उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

उल्लेखनीय है कि कल ही दिनांक 17.02.2021 को माननीय जनपद न्यायालय सीतापुर द्वारा उक्त गैंग के गैंग लीडर रमन साहनी एवं सरोज अवस्थी उपरोक्त को चार वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

जब्त की गयी भूमि का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विपक्षी उपरोक्त का अंश	अंश के अनुसार क्षेत्रफल
1	नैपालापुर	00488	928	1.0110	1/5	0.2022
2	टेडवा चिलौला	00113	380क	0.2020	पूर्ण	0.2020
3	विपक्षी सरोज अवस्थी का एक किता मकान स्थित मोहल्ला आदर्शनगर नैपालापुर थाना कोतवाली नगर सीतापुर					
4	विपक्षी सरोज अवस्थी के पुत्र सौरभ के नाम एक वैगन-आर कार संख्या यू.पी. 34 वी 2223 कीमत करीब 5,00,000/-					
सम्पूर्ण योग:- 1,50,00000/- रू0 एक करोड़ पचास लाख रूपये						

सरोज अवस्थी पुत्र गोवर्धन अवस्थी निवासी मोहल्ला आदर्शनगर थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 1300/05 धारा 420/466/467/471 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 1301/05 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 659/09 धारा 467/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर
4. केसनं0 7024/2009 धारा 138 N ACT भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
5. मु0अ0सं0 2288/2010 धारा 327/379/427/506/386 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
6. मु0अ0सं0 52/11 धारा 504/506/386 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
7. मु0अ0सं0 174/11 धारा 419/420/467/483/ 471/504/506 भादवि एवं 3(1)x sc/st एक्ट थाना कोतवाली
8. मु0अ0सं0 175/11 धारा 417/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
9. मु0अ0सं0 176/11 धारा 198 जेड0एल0आर0 एक्ट व 506 भादवि थाना कोतवाली नगर
10. मु0अ0सं0 177/11 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर
11. मु0अ0सं0 178/11 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर
12. मु0अ0सं0 179/11 धारा 332/353/504/189 भादवि एवं 3(1)x sc/st एक्ट थाना कोतवाली
13. मु0अ0सं0 186/13 धारा 389/419/429/467/468/479 भादवि थाना कोतवाली
14. मु0अ0सं0 185/2015 धारा 452/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
15. मु0अ0सं0 243/15 धारा 405/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
16. मु0अ0सं0 553/15 धारा 419/420/467/468/471 भादवि हरदोई स्थानांतरण
17. मु0अ0सं0 898/2016 धारा 419/420/467/471/506 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
18. मु0अ0सं0 732/17 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली सीतापुर